



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 543]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 1978/अग्राहायण 17, 1900

No. 543]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 1978/AGRAHAYANA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1978

का० प्र० 715 (अ)/प्र० वस्तु/लोहा और इस्पात—केन्द्रीय सरकार, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 28ख के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के खण्ड 28ख के उपखण्ड (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्राधिकरण गठित करती है, अर्थात्:—

- (1) जहाँ आदेश लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा किया गया है, वहाँ इस्पात और खान मंत्रालय, इस्पात विभाग का सचिव या अपर सचिव ;
- (2) जहाँ आदेश, लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, वहाँ लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता ।

[सं० एस० सी०-1(7)/78 डी आई ए]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1978

**S.O. 715(E)/ESS. COMM/IRON AND STEEL.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 28B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby constitutes the following authorities for the purpose of hearing appeals against any order made under sub-clause (1) of clause 28B of the said Order, namely :—

- (i) where the order is made by the Iron and Steel Controller, Calcutta, the Secretary or the Additional Secretary in the Ministry of Steel and Mines, Department of Steel ;
- (ii) where the order is made by an authority other than the Iron and Steel Controller, Calcutta, the Iron and Steel Controller, Calcutta.

[No. SC-1(7)/78-DIA]

## आदेश

## ORDER

का०आ० 716(घ) आच० वस्तु/लोहा और इस्पात.— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम लोहा और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 28B में,—

(क) उपखण्ड (2) में, “केन्द्रीय सरकार को”, शब्दों के स्थान पर, “ऐसे प्राधिकरण को, जो केन्द्रीय सरकार अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित करे” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखण्ड (3) में, “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर, “उस उपखण्ड के अधीन गठित प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपखण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) लोहा और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, उपखण्ड (2) के अधीन फाइल की गई और केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित, प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारम्भ पर, उक्त उपखण्ड के अधीन गठित और ऐसी अपील की सुनवाई करने की अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरण को अन्तर्गत हुई समझी जाएगी, और इस प्रकार गठित प्राधिकारी ऐसी अपील की सुनवाई और उसका निपटारा उसी प्रकार करेगा मानो वह अपील उसके समक्ष ही फाइल की गई हो।”

[एस० सी०-1(7)/78-डी आई ए]

के० जे० एम० शेट्टी, संयुक्त सचिव

S.O. 716(E)/ESS. COMM/IRON AND STEEL.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Iron and Steel (Control) Order, 1956, namely:—

1. (1) This order may be called the Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 28B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956,—(a) in sub-clause (2), for the words “to the Central Government,” the words “to such authority as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute for the purpose of hearing appeals” shall be substituted;

(b) in sub-clause (3), for the words “the Central Government”, the words “the authority constituted under that sub-clause” shall be substituted;

(c) after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted, namely, :—

“(4) Every appeal filed under sub-clause (2) and pending before the Central Government immediately before the commencement of the Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1978, shall, on such commencement, stand transferred to the authority constituted under the said sub-clause and having jurisdiction to hear such appeal, and the authority so constituted shall proceed to hear and dispose of such appeal as if it had been an appeal filed before it.”

[No. SC-1(7)/78-DIA]

K. J. M. SHETTY, Jt. Secy.